

थाना जलालाबाद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी

जनसेवा केन्द्र संचालकों व धोखाधड़ी करके ठगी करने वाले गिरोह को पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार ।

आज दिनांक 22.02.2021 को एस0ओ0जी व थाना जलालाबाद द्वारा संयुक्त कार्यवाही में ग्रामीण बैंक खाताधारकों के नकली फिंगर प्रिंट तकनीकी माध्यम से बनाकर अवैध रूप से पैसे निकालने वाले संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुये, गिरोह सरगना सहित 06 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से आर्टिफिशियल फिंगर प्रिंट, डमी मोहर, लैपटाप, आधार कार्ड, भारी मात्रा में बैंक पासबुक, बायोमैट्रिक थम्ब स्कैनर मशीन, ग्लू-गन उपकरण, रसायन आदि व अन्य अभिलेख बरामद करने में सफलता प्राप्त की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

- 1-शिवराम पुत्र दिनेश नि0 ग्राम बछेड़ा महुआडांडी थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुरा
- 2-सुनील त्रिपाठी उर्फ कृष्ण कुमार त्रिपाठी पुत्र ओम प्रकाश त्रिपाठी नि0 मो0ब्रम्हनान कस्बा व थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुरा
- 3-देव वृत्त सिंह पुत्र चन्द्र पाल सिंह नि0 ग्राम गुरुगंवा थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुरा
- 4-हुकुम सिंह पुत्र वीरेश पाल नि0 ढका थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुरा
- 5-गौरव पुत्र ब्रम्हपाल नि0 भैसटा थाना कांठ जनपद शाहजहाँपुरा
- 6-संदीप सिंह पुत्र भानू नि0 खखूडी थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुरा

फरार अभियुक्तों का विवरण-

- 1-शहरून पुत्र नामालूम नि0 ग्राम पन्हरई थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुरा
- 2-राजवीर पुत्र रामरतन नि0 ब्लॉक के पास कस्बा व थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुरा

बरामदगी का विवरण-

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1-लैपटॉप | 6-फोटो |
| 2-आधार कार्ड | 7-पैन कार्ड |
| 3-बायोमैट्रिक थम्ब स्कैनर मशीन | 8-ग्लू-गन |
| 4-पास बुक | 9-01 अदद तमंचा (.315 बोर) व 2 अदद कारतूस |
| 5-अंगूठे के निशान व मोहर | |

विगत कुछ दिनों से एस0ओ0जी0 प्रभारी व प्र0नि0 जलालाबाद को यह सूचना प्राप्त हो रही थी कि जनपद में कई बैंक मित्रों द्वारा अपने बैंक सेवा केन्द्र के माध्यम से सीधे-साधे खाताधारकों के अंगूठा निशान (फिंगर प्रिंट) को नकली रूप से तैयार कर, उनके खातों से फिंगर प्रिंट स्कैनर व आधार कार्ड का उपयोग कर, खातों से पैसे निकाल लिये जाते हैं, यह अपराध एक संगठित गिरोह के रूप में किया जा रहा है। इस अभिसूचना को विकसित करते हुये प्रभारी एस0ओ0जी श्री रोहित कुमार व प्र0नि0 जलालाबाद श्री जसवीर सिंह द्वारा मुखबिरों के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारियां एकत्रित की गयीं। इसी क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया कि थाना जलालाबाद क्षेत्र में बैंकमित्र शिवराम व अन्य द्वारा गौरव के माध्यम से खाताधारकों के फर्जी फिंगर प्रिंट बनवाकर उनके खातों से धनराशि निकाली जाती है। इनकी गतिविधियों पर गहन निगरानी रखी जा रही थी, ताकि इनके विरुद्ध पुष्ट साक्ष्य संकलित कर ठोस

कार्यवाही की जा सके थाना जलालाबाद पर 03 खाताधारकों द्वारा इसी संदर्भ में अलग-अलग अभियोग पंजीकृत कराये गये थे।

आज दिनांक 22.02.2021 को एस0ओ0जी0 प्रभारी व प्र0नि0 जलालाबाद को मुखबिर द्वारा पुष्ट सूचना प्राप्त हुयी कि शिवराम व उसके साथी अपनी दुकान पर मौजूद हैं और उनसे फर्जी अंगुष्ठ चिन्ह, पासबुक आदि की बरामदगी हो सकती है। इस सूचना पर टीम बनाकर अभियुक्त शिवराम के बैंक सेवा केन्द्र पर दबिश देकर 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे खाताधारकों की पासबुक व आधारकार्ड बरामद हुये। पूछ-ताछ पर इनके द्वारा बताया गया कि गौरव से हम लोग फर्जी अंगुष्ठ चिन्ह बनवाते हैं। उक्त सूचना पर अभियुक्त गौरव के बैंक सेवा केन्द्र पर दबिश देकर अभि0 गौरव व संदीप को गिरफ्तार किया गया। जहां अभियुक्तों के कब्जे से ग्लू-गन, भारी मात्रा में ग्लू स्टिक और फेवीकोल, फर्जी फिंगर प्रिंट बनाने के अन्य सामान व रसायन तथा 01 तमंचा (315 बोर) बरामद हुआ। अभियुक्तों द्वारा पूछ-ताछ पर बताया गया कि ग्लू गन से ग्लूस्टिक पिघलाकर उस पर खाताधारकों के अंगुष्ठ चिन्ह ले लेता है व उसके सूख जाने पर उसी चिन्ह पर फेवीकोल की एक परत डाल देता है, 03-04 दिन में फेवीकोल के सूख जाने पर उसे ग्लू से अलग कर लेता है तथा दोनों को बैंक मित्रों को वापस दे देता है। इसका उपयोग कर शिवराम आदि अभियुक्तगण, खाताधारकों के खाते से पैसा निकाल लेते थे। गौरव से पूछ-ताछ पर एक अन्य बैंक सेवा केन्द्र पर दबिश देकर अभि0 हुकुम सिंह को गिर0 किया गया, जिसके कब्जे से भी फिंगर प्रिंट व पासबुक इत्यादि बरामद किये गये।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना जलालाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

- 1- मु0अ0सं0 107/21 धारा 420/409/467/468/471 भादवि
- 2- मु0अ0सं0 108/21 धारा 420/409/467/468/471 भादवि
- 3- मु0अ0सं0 109/21 धारा 420/409/467/468/471 भादवि
- 4- मु0अ0सं0 110/21 धारा 420/409/467/468/471 भादवि
- 5- मु0अ0सं0 111/21 धारा 3/25 आयुध अधि0

पुलिस पार्टी का विवरण-

- | | |
|--|--|
| 1- श्री जसवीर सिंह प्रभारी निरीक्षक जलालाबाद | 8- कां0 1735 ज्ञानेन्द्र यादव |
| 2- श्री रोहित कुमार, एस0ओ0जी0 प्रभारी | 9- कां0 1738 अभिलाश अवस्थी |
| 3- उ0नि0 श्री विनोद कुमार, | 10- कां0 593 नरेश कुमार |
| 4- उ0नि0 श्री जीत सिंह | 11- कां0 2121 अंकित कुमार |
| 5- हे0कां0 313 देवेन्द्र यादव | 12- कां0 1953 लोकेन्द्र कुमार |
| 6- हे0कां0 329 राजाराम, एस0ओ0जी0 | 13- कां0 264 ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह, एस0ओ0जी0 |
| 7- हे0कां0 158 उदयवीर, एस0ओ0जी0 | 14- कां0 1433 दिलीप, एस0ओ0जी0 |
| | 15- कां0 1475 अजय एस0ओ0जी0 |